



KEI Industries Limited

BRUGG CABLES
Well connected.

KEI is under Technical Collaboration Agreement with BRUGG to manufacture EHV cables up to 400kV

Registered and Corporate Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020 CIN: L74899DL1992PLC051527
Tel.: +91-11-26818840/8642/0242, Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2023-24

Date: 03.05.2023

**The Manager,
BSE Limited
Listing Division,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001.**

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2023. The Company published the advertisement in the following newspapers.

1. Business Standard (All editions) in English Language on 03.05.2023.
2. Business Standard (Delhi edition) in Hindi Language on 03.05.2023.

This is for the information of the exchange and the members.

**Yours truly,
For KEI INDUSTRIES LIMITED**

**(KISHORE KUNAL)
AVP (Corporate Finance) & Company Secretary**

CC:

**The National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Division, Exchange Plaza, Plot No.
C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051**

**The Calcutta Stock Exchange Ltd.
The Senior Manager, Listing Division,
7, Lyons Range, Kolkata-700001**

Works-I : Bhiwadi : SP-919/920/922, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); Tel : 01493-220106/221731, Fax: 01493-221780; E-mail: bhiwadi@kei-ind.com
Works-II : Silvassa : 99/2/7, Madhuban Industrial Estate, Rakholi, Silvassa UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu-396230; Tel: +91-7359344404/7359244404; E-mail: silvassa@kei-ind.com
Works-III : Chopanki : A-280-284 RIICO Industrial Area (Chopanki) Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); E-mail: chopanki@kei-ind.com
Branch : Mumbai : Nirvan Corporate, 7th Floor, Opposite Aghadi Nagar, Pump House, Jijamata Road, Andheri East, Mumbai-400093; Tel: 91-22-28239673/28375642; E-mail: mumbai@kei-ind.com
Offices : Kolkata : Arihanth Benchmark, 4th Floor, 113-F, Matheshwartola Road, Kolkata-700046; Tele: 033-40620820/40620821; E-mail: kolkata@kei-ind.com
: Chennai : No.04, (Old No.23) SIR C P Ramasamy Road, 2nd Floor, Near Apollo Spectra Hospital, Alwarpet, Chennai-600018; Tel : 044-42009120



MANAPPURAM HOME FINANCE LTD
NOTICE
 With effect from 01-08-2023 all business activities of our Alwar Branch (Manappuram Home Finance Ltd Manu Marge Alwar Building No. 2, 1st Floor, Vasistha Plaza, Manu Marge, Alwar Dt., Pin - 301 001, Ph: 9828692628 / 7014943149 / 9602620538) will be shifted to (Alwar Branch Second Floor, Vashi Plaza, Building no.2, Manu Marg, near Vijayanti Hospital Alwar, Rajasthan Pin: 301001PH: 9828692628 / 7014943149/9602620538). Customers may kindly note the change and are requested to approach us at the above-mentioned address only for all further transactions and requirements after the said date.
Call: 9828692628 / 7014943149
MANAPPURAM HOME FINANCE LTD
 CIN: U65230KL2019PLC039179
 IV470A(OLD)W638A(NEW), Manappuram House, Valapad, Thrissur, Kerala-680567

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED
 Regd. Office: Dhampur, Distt. Bijnor-246761, U.P.
 Corp. Office: 6th Floor, Max House, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020
 CIN: L15940IP3323PLC000511, Ph: 011-41259400
 Email: investor@dhampursugar.com, Website: www.dhampursugar.com
Intimation for dispatch of Dividend through Dividend Warrants/Demand Drafts/National Automated Clearing House
 This is to inform that subsequent to the declaration of Interim Dividend in the meeting of the Board of Directors of the Company held on 3rd April, 2023 @5% i.e. ₹ 5.00 (Rupees Six only) per Equity Share of ₹10 each (Aggregate of Interim Dividend of 50% i.e. ₹ 5.00 per Equity Share of ₹ 10 each and a Special Dividend of 10% i.e., ₹ 1.00 Per Equity Share of ₹ 10 each of the Company on successful completion of new refinery project for the Financial Year 2022-23, the Company has completed the dispatch of Interim Dividend Warrants on 2nd May, 2023. The Company has also paid the Interim Dividend through National Automated Clearing House (Electronic payment) to those eligible shareholders, whose Bank details were updated with their respective depositories. Shareholders who do not receive Dividend in due course may contact the Registrar, Transfer Agent, Alankit Assignments Limited, (Unit: Dhampur Sugar Mills Limited) Alankit Heights, 4E/2, Jhandawan Extension, New Delhi- 110055; Phone: 011-42541953; Email: rta@alankit.com.
 For Dhampur Sugar Mills Limited
 Sd/-
 Aparna Goel
 Place : New Delhi Company Secretary
 Dated : 02.05.2023 M. No. 22787

BEFORE THE HON'BLE ADDL. LXXXVIII CITY CIVIL AND SESSIONS JUDGE, BANGALURU (CGH-89) Comm. A.A. No. 112/2022
IN THE MATTER OF M/s. CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES INDIA PVT. LTD., 6th Floor, Tower 'B', Prestige Shantiniketan, The Business Precinct, Whitefield Main Road, Bengaluru, Karnataka-560048. ...APPLICANT
AND S.S. Construction & Anr. ...RESPONDENTS
Service of Court Summons to the Respondents through Paper Publication
R2) 1. Gurpreet Singh, Dera New Baholi, Baholi 12, Panpat Haryana, Panpat, Haryana-132140.
 Whereas the Applicant has filed the above Application against you to provide adequate security to the Applicant Company equivalent to an amount of **Rs. 43,93,765/-** so as to cover the outstanding loan amount due to the Applicant Company. Take notice that the above case is posted for your appearance on **12.06.2023**. If you have any defence, you are required to appear before the court either in person or through advocate, duly authorised on the aforesaid date of hearing, failing which the matter will be decided on merits placing you ex-parte.
SCHEDULE OF VEHICLE
A. SCHEDULE
Equipment : CATERPILLAR 320D3
Maker's Name : Caterpillar
Model No. : 320D3
Serial No. : FEY00560
 Given under my hand and seal on this 20th day of April 2023 at Bangalore.
By order of the Court, Sheristadar, City Civil Court, Bangalore.
 Advocate for Applicant :
Thakur & Sinha Law Offices LLP
 #117, Ashwin Arcade, 3rd Floor, Sanjay Nagar Main Road, RMV II Stage, Ashwathnagar, Bangalore, Karnataka-560094.

KEI INDUSTRIES LIMITED
 Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110 020
 Phone: 91-11-26818840/26818642, Fax: 91-11-26811959/26817225
 Web: www.kei-ind.com, E-mail: cs@kei-ind.com
 (CIN: L74899DL1992PLC051527)

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

Sr. No	Particular	STANDALONE RESULTS				CONSOLIDATED RESULTS			
		Quarter ended 31.03.2023	Quarter ended 31.12.2022	Quarter ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2023	Quarter ended 31.03.2023	Quarter ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
		Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	19,595.89	17,980.80	17,999.75	69,399.54	57,418.76	69,399.53	57,415.87	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,844.69	1,737.58	1,558.00	6,420.48	5,077.32	6,420.07	5,075.28	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,844.69	1,737.58	1,558.00	6,420.48	5,077.32	6,420.07	5,075.28	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,381.07	1,286.11	1,158.83	4,773.83	3,762.19	4,773.42	3,760.15	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,373.92	1,287.50	1,164.85	4,773.21	3,770.10	4,772.82	3,768.06	
6.	Equity Share Capital	180.38	180.38	180.21	180.38	180.21	180.38	180.21	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year				25,709.70	21,173.01	25,711.46	21,175.12	
8.	Earning per share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations)	15.31	14.26	12.87	52.95	41.80	52.94	41.77	
	1. Basic	15.31	14.26	12.87	52.95	41.80	52.94	41.77	
	2. Diluted	15.28	14.23	12.81	52.87	41.59	52.86	41.56	

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.kei-ind.com.
 For KEI Industries Limited
 Sd/-
 Anil Gupta
 Chairman-cum-Managing Director
 DIN: 0006422
 Place of Signing: New Delhi
 Date: 02.05.2023

SIDBI
 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
 SIDBI invites application for Expression of Interest (EOI) for "EMPANELMENT OF SELLER NETWORK PARTICIPANT (SNP) TO FACILITATE AND SUPPORT ONBOARDING ON ONDC NETWORK".
 For more details, visit www.sidbi.in and <http://eprocure.gov.in/>.
 The EOIs must be submitted by May 23, 2023 (1700 hours).
DGM
SIDBI, Lucknow

Central Office: Chandermukhi Nariman Point, Mumbai-400 021
NOTICE FOR INVITING TENDER
 Central Bank of India invites Request for Proposal (RFP) Tender Ref No.: CO/HCM/L&D/2023-24/02 dated **02.05.2023** for "Interactive Digital Whiteboard". For complete details, please visit Bank's website www.centralbankofindia.co.in under Live Tenders.
 Last Date for submission of Bid is **23.05.2023**.
 Sd/-
 Place: Mumbai Asst. General Manager
 Date: 02.05.2023 L&D (HCM)

Foseco India Limited
 Regd. Office : Gat Nos. 922 & 923, Sanaswadi, Taluka Shirur, District Pune - 412 208.
 Tele: +91 2137 668100, Fax: +91 2137 668160.
 Website : www.fosecoindia.com
 E-mail : investor.grievance@vesuvius.com
 CIN : L24294PN1958PLC011052

NOTICE OF THE 66TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 66th Annual General Meeting of the Members of Foseco India Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, 24 May 2023 at 1430 Hours (IST)** through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as mentioned in the Notice of the AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Gat Nos. 922 & 923, Sanaswadi, Taluka Shirur, District Pune - 412 208. The Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") vide its General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May 2020 and 10/2022 dated 28th December 2022 and other circulars issued in this respect ("MCA Circulars") has allowed the Companies, inter-alia, to conduct the Annual General Meeting through VC or OAVM facility on or before 30th September 2023, in accordance with the requirements provided in paragraphs 3 and 4 of the MCA General Circular No. 20/2020. The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") also vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 ("SEBI Circular") has provided certain relaxations from compliance with certain provisions of the SEBI Listing Regulations. In compliance with these Circulars, provisions of the Act and the SEBI Listing Regulations, the Company will conduct this AGM by providing two-way teleconferencing facility (VC facility) to its Members through National Securities Depository Limited (NSDL) e-voting platform. This AGM has been convened through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021 and Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021. Electronic copy of the Annual Report for the financial year 2022 including the AGM Notice of the Company, inter-alia, indicating the process and manner of electronic voting ("e-voting") has been sent to all the Members on 28th April 2023 whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s), for communication purposes, unless any member has requested for a hard copy of the same. In case any member is desirous of obtaining hard copy of the Annual Report and AGM Notice of the Company, may send request to the email address at pune@linkintime.co.in, ashok.gupta@linkintime.co.in or umesh.sharma@linkintime.co.in, mentioning Folio No./ DP ID and Client ID. Members who have not registered their e-mail addresses may get the same registered by sending an e-mail to the Company's Registrar at Link Intime India Pvt. Ltd., Akshay Complex, Block 202, 2nd Floor, Off Dhole Patil Road, Near Ganesh Mandir, Pune-411001, providing necessary details like Folio No./DPID, Client ID, name and address, scanned copy of the share certificate (front and back) or Client Master Copy, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAAR Card. Members may also note that the Annual Report and the AGM Notice are available on the Company's website: www.fosecoindia.com. Additionally, these can be accessed on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting during the AGM/EGM) at www.evoting.nsdl.com. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, 18 May 2023 to Wednesday, 24 May 2023 (both days inclusive)** in terms of the provision of Section 91 of the Companies Act, 2013, for determining the entitlement of the members to the payment of final dividend, if declared at the Meeting. The final dividend, if declared at the AGM, shall be paid/credited on or before **Thursday, 22 June 2023**. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is providing its Members facility to exercise their right to vote on Resolutions proposed to be considered at this AGM by electronic means which includes "remote e-voting" i.e., from a place other than venue of the AGM, provided by NSDL. The website for the e-voting is: <https://eservices.nsdl.com>. The e-voting particulars are set out below:
 a) Type of Share: **Equity Share**
 b) EVEN: **123836**
 c) Date and time of commencement of remote e-voting: **Friday, 19 May 2023 at 0900 Hours (IST)**.
 d) Date and time of end of remote e-voting: **Tuesday, 23 May 2023 at 1700 Hours (IST)**. The remote e-voting module will be disabled thereafter.
 e) The cut-off date: **Wednesday, 17 May 2023**.
 The facility of e-voting shall also be made available at the Meeting. Members attending the Meeting who have not already cast their vote by remote e-voting facility shall be able to exercise their right at the Meeting. If any votes are cast by the Member through the e-voting available during the AGM but the Member does not participate in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such Member shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the Member attending the meeting. The Members who have cast their vote by remote e-voting facility prior to the Meeting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the Meeting. If a Member cast their vote again, then votes cast through remote e-voting facility shall prevail and voting at the Meeting will be treated invalid. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date of **Wednesday, 17 May 2023**. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. Any person who has ceased to be the Member of the Company before the cut-off date will not be entitled for remote e-voting or voting at the Meeting. Any person, who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at pune@linkintime.co.in, ashok.gupta@linkintime.co.in or umesh.sharma@linkintime.co.in. However, if any Member is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password/PIN for casting their vote. The Helpline details of the person who may be contacted by the members needing assistance with the use of technology, before or during the AGM shall be the same persons mentioned for remote e-Voting and reproduced here for convenience: Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel, Mumbai - 400013, at the designated email address: evoting@nsdl.co.in or at telephone nos.: 022-48867000 and 022-24997000. Members may also write to the Company's email address at investor.grievance@vesuvius.com. Members are advised to register their Income Tax PAN (including that of joint holders, if any), bank account details, any change in address and/or name, submit National Electronic Clearing Service (NECS) or Electronic Clearing Service (ECS) mandates, nominations, e-mail address, contact numbers, etc., if not so done, by writing to the Company's Registrar at the above address. Members holding securities in dematerialised form are requested to intimate such changes to their respective depository participants.

Bank of India
 Relationship beyond banking
Request For Proposal (RFP) Notice
 BANK OF INDIA INVITES REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) for Maintenance, Hardware Refreshment, Upgradation and Enhancement of the Enterprise Datawarehouse for Bank of India.
 Last date for submission of RFP 31.05.2023 by 3:00 pm.
 Details available on Bank's Corporate Website: www.bankofindia.co.in under "Tender" Section.

CONTROL PRINT LIMITED
 Regd. Office: C-106, Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri-Kurla Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai 400 059.
 www.controlprint.com | E-mail: companysecretary@controlprint.com
 Tel: +91 22 28599065 / 66938900 | CIN: L22219MH1991PLC059800

EXTRACT OF THE AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated					
		Quarter Ended 31.03.2023	Quarter Ended 31.12.2022	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Quarter Ended 31.03.2023	Quarter Ended 31.12.2022	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022		
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited		
1	Total Income from Operations (Net)	8,555.59	7,527.69	7,714.86	29,533.95	25,652.02	9,017.33	7,903.91	7,824.00	30,815.16	25,848.57
2	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax (Before Exceptional Items)	1,739.97	1,597.55	1,540.49	6,220.51	4,686.05	1,822.89	1,623.64	1,465.29	6,337.04	4,572.65
3	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax (After Exceptional Items)	1,739.99	1,597.57	1,540.75	6,240.47	5,002.66	1,822.91	1,623.66	1,465.55	6,357.00	4,889.26
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (After Exceptional Items)	1,542.89	1,322.39	1,305.50	5,193.38	4,123.94	1,601.02	1,348.48	1,229.52	5,285.17	4,009.76
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period and Other Comprehensive Income(after tax)]	1,192.96	1,817.32	993.84	5,002.60	3,874.03	1,251.09	1,843.41	917.86	5,094.39	3,759.85
6	Equity Share Capital	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				26,789.89	23,104.81				26,510.81	22,705.17
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted :	9.45* 9.45*	8.10* 8.10*	7.99* 7.99*	31.80 31.80	25.25 25.25	9.80* 9.80*	8.26* 8.26*	7.53* 7.53*	32.36 32.36	24.55 24.55

*Not annualised
Note:
 1. The above is an extract of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on May 02, 2023 and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial results are available on the website of the Company at www.controlprint.com and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.
 2. Recommended a final dividend of Rs. 5/- per equity shares (50% on Face Value of Rs. 10/- per share for the financial year ended March 31, 2023, subject to approval of Members at the ensuing Annual General Meeting of the Company.
 3. Financial results for the quarter and year ended have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
 For and on behalf of the Board of Directors
 Sd/-
Basant Kabra
 Managing Director
 DIN 00176807
 Place : Mumbai
 Date : May 02, 2023

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DEHRADUN
 Paras Tower, 2nd Floor, Majra Niranjapur, Saharanpur Road, Dehradun
DEMAND NOTICE
 NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.
RC/95/2023 Dated: 28.03.2023
Bank of India Versus M/s KONCEPTS & ANR.
To.
CD.1: M/s Koncepts, Majhola Delhi Road, Moradabad, Uttar Pradesh.
CD.2: Shri Rakesh Mehrotra S/o Sh. Raj Kishore Mehrotra, R/o A-23, Dev Vihar, Moradabad, Uttar Pradesh.
 This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DEHRADUN in **OA/212/2021** an amount of **Rs. 39,08,673.33** (Rupees Thirty Nine Lakhs Eight Thousand Six Hundred Seventy Three and Paise Thirty Three Only) along with pendente lite and future interest @ **7.60%** Simple interest yearly w.e.f. 19.07.2021 till realization and costs of **Rs. 77,150.00** (Rupees Seventy Seven Thousand One Hundred Fifty Only) has become due against you (Jointly and severally).
 2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
 3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of your assets on or before the next date of hearing.
 4. Your are hereby ordered to appear before the undersigned on **16.05.2023** at 10.30 a.m. for further proceedings.
 5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay.
 (a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.
 (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceeding taken for recovering the amount due.
 Given under my hand and the seal of the Tribunal, on **28.03.2023**
 Recovery Officer-II
 Debts Recovery Tribunal Dehradun

Business Standard
CAMPUS TALK
PROMOTIONS
IMS DIA ORGANISES PRINCIPAL'S CONCLAVE
 IMS Design & Innovation Academy (IMS DIA) organised a principal conference for school leaders to discuss ideas and interact on art, design, and learning practices. The conclave focused on the evolving function of schools in establishing a creative skill-based ecosystem, in addition to the NEP-2020. The event's main guest was Dr Kulneet Suri, Senior Director of IMS Noida, addressed everyone on emotional and strategic intelligence. She said, "Emotional intelligence is a vital ability for school administrators to have in order to build trust, boost staff engagement, and foster a culture of teaching and learning. To navigate today's complicated educational environment, leaders must receive feedback and support not only to strengthen their skills as educational and academic leaders, effective partners, and efficient communicators but also to learn how to cope with others' feelings as well as their own."


I.T.S GHAZIABAD ORGANISES INTERNATIONAL CONFERENCE IASGBE-2023
 The Institute of Technology and Science and I.T.S School of Management, Ghaziabad, organised an International Conference on the theme 'Innovations, Agility, and Sustainability in Global Business Environment' (IASGBE-2023) on 28-29 April 2023.
 The inaugural ceremony was graced by Chief Guest Lt. General Ajay Kumar Singh (Retd.), Former Lt. Governor, Andaman and Nicobar Islands & Puducherry; Guests of Honour Prof. S. K. Jain, Former Vice-Chancellor, SMVDU, Jammu; and Dr Ravi Shankar, Professor, IIT Delhi.
 Dr V. N Bajpai, Director, welcomed the guests and, in his address, shared how innovation through agility requires experimentation to progress in various areas.
 Lt. General Ajay Kumar Singh (Retd.) deliberated on the unique aspects of leadership in a VUCA world. He alluded that corporates could benefit from employing a model that focuses on life and death decisions without limiting itself to simple profit and loss evaluations.
 Guests of Honours, Prof. S. K. Jain traced the development of innovation in various fields,
 in sketching activities intended to demonstrate society's design philosophy. It was about "finding the negatives" that touched the child within everyone present. Dr Kulneet Suri, Senior Director of IMS Noida, addressed everyone on emotional and strategic intelligence. She said, "Emotional intelligence is a vital ability for school administrators to have in order to build trust, boost staff engagement, and foster a culture of teaching and learning. To navigate today's complicated educational environment, leaders must receive feedback and support not only to strengthen their skills as educational and academic leaders, effective partners, and efficient communicators but also to learn how to cope with others' feelings as well as their own."
 Participants got enriched from two panel discussions, one on the theme 'Sustainability of Business in Volatile Global Business Environment' by professors from IIM-A, IIM-I, IIM-K, IIM-Kashipur & others and an exclusive international panel on 'Innovations, Agility, and Sustainability in Global Business Environment' with academic luminaries from the USA, England, Vietnam, Romania, Peru.
 The two-day conference witnessed more than a hundred paper presentations from India and abroad.


ETT LIMITED
 CIN L22122DL1993PLC123728
 Regd. Office: 17, Hemkunt Colony, New Delhi - 110 048
 T & F: +91 11 4656 7575, E-mail: secretarial@ettgroup.in, Web: www.ettgroup.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") in relation to the Open Offer by Mr. Sunil Hukumat Rajdev ("Acquirer") to the Equity Shareholders of ETT Limited ("Target Company" or "TC") for the acquisition of 26,95,852 Equity Shares of the Target Company, under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("Takeover Regulations")

1.	Date	May 02, 2023
2.	Name of the Target Company (TC)	ETT Limited
3.	Details of the Offer pertaining to the TC	The Offer is being made by the Acquirer in terms of Regulations 3(1) and (4) of the Takeover Regulations for the acquisition of 26,95,852 (Twenty Six Lakhs Ninety Five Thousand Eight Hundred Fifty Two) Equity Shares of the face value of ₹10/- each ("Offer Shares"), representing 26% of the voting share capital of the Target Company at an Offer Price of ₹35/- (Rupees Thirty Five Only) per fully paid up Equity Share of ₹10 each, payable in cash.
4.	Name of the Acquirer(s) and the Person Acting in Concert (PAC) with the Acquirer	Acquirer: Mr. Sunil Hukumat Rajdev There is no Person Acting in Concert (PAC) with the Acquirer.
5.	Name of the Manager to the Offer	Fintellectual Corporate Advisors Private Limited
6.	Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	1. Mr. Ratinder Pal Singh Bhatia Chairman of the Committee and Independent Non-Executive Director 2. Ms. Roopal Sharma Independent Non-Executive Director
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity Shares owned, any other contact/relationship), if any	None of the Members of the IDC hold any Equity Shares in the TC nor have any relationship with the other Directors of the TC and apart from being the directors of the TC they are not related to each other in any manner.
8.	Trading in the Equity Shares/ other Securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members have traded in the equity shares of Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, Equity Shares owned, any other contact/relationship), if any	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the Equity Shares of Acquirer by IDC Members	Not Applicable
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on the review of the Public Announcement and the Detailed Public Statement issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Further IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint from the shareholders regarding the open offer process, valuation price or method of valuation.
12.	Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the PA, DPS, LOF issued / submitted by Fintellectual Corporate Advisors Private Limited (Manager to the Offer) for and on behalf of the Acquirer and believes that the Offer Price of ₹ 35/- (Rupees Thirty Five Only) per fully paid up Equity Share of ₹ 10 each, offered by the Acquirer being the highest price amongst the selective criteria in line with the Takeover Regulations and prima facie appears to be fair and reasonable. The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Offer and take informed decision whether or not to offer their shares in the Open Offer.
13.	Details of Independent Advisors, if any	None
14.	Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material

